

प्रेस नोट दिनांक-11.06.2022

(1). आज दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप कुमार शुक्ला एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम की उपस्थिति में थाना मऊ में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). दिनांक-10.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आज दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री शैलेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में थाना रैपुरा में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिए गए

थाना समाधान दिवस में वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना रैपुरा श्री रामवीर सिंह एवं नायब तहसीलदार श्री घासीराम एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 63/2022 धारा 354/323/504/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त उमाकान्त पुत्र सधुआ निवासी रघुवंशीपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी महेन्द्र शुक्ला

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब की निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा बहद ग्राम पचोखर से अभियुक्त कामता पुत्र गोरेलाल निवासी ग्राम पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 21 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 79/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

21 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका मस्तीहू

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी अनिकेत सिंह

(8). आज दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप कुमार शुक्ला एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम की उपस्थिति में थाना मऊ में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात महोदय द्वारा थाना रैपुरा में थाना समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।